



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1979/श्रावण 22, 1901

No. 258]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1979/SRAVANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मन्त्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 जनवरी, 1978 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “एक किलोग्राम या एक लिटर से अधिक क्षमता वाले” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं. 247/79-सी इ/फा. सं. 164/1/78-सी एक्स 4]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th August, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the

494 GI/79

Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/78-Central Excises, dated the 28th January, 1978, namely :—

In the said notification, the words “of capacity not exceeding one kilogram or one litre” shall be omitted.

[No. 247/79-C. E./F. No. 164/1/78-C. X. 4.]

सा. का. नि. 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 26-कक के अन्तर्गत आने वाले इस्पात के सांघों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से जो प्रति मीटरी टन एक सौ रुपये से अधिक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट देती है कि ऐसे इस्पात के सांघों का विनिर्माण :—

- (क) एल्युमिन-थर्मिक प्रक्रिया से हुआ है ; और
- (ख) निम्नलिखित सामग्री में से किसी से या उनके मिश्रण से हुआ है, अर्थात् :—
 - (1) पुराने इस्पात को गलाने से प्राप्त स्क्रैप से ; या
 - (2) प्रयोग न किए गए इस्पात को गलाने से प्राप्त स्क्रैप, जिनके लिए समुचित उत्पाद-शुल्क संवस्त किया जा चुका है।

[248/79 के उ इ/फा सं. 139/51/77-के उ इ 4]

एस. एन. बूसी, अवर सचिव

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel castings, falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (F of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of one hundred rupees per metric tonne, subject to the condition that such steel castings are manufactured:—

(a) with the aid of aluminothermic process; and

(b) from any of the following materials or a combination thereof, namely:—

- (i) old steel melting scrap; or
- (ii) fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid.

[No. 248/79-C. E./F. No. 139/51/77-C. X. 4.]

S. N. BUSI, Under Secy.